



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1438]  
No. 1438]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 30, 2006/अग्रहायण 9, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2006/AGRAHAYANA 9, 1928

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2006

का.आ. 2051(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1095(अ), तारीख 14 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 372.600 कि.मी. (डीसा) से 447.000 कि.मी. (जिला सीमा, पाटन) (दीसा-राधनपुर सैक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (जोड़ कर/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 25 जुलाई, 2006 को "दिव्य भास्कर" और "संदेश" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) (2) के अधीन उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के 372.600 कि.मी. (डीसा) से 447.000 कि.मी. (जिला सीमा, पाटन) (डीसा-राधनपुर सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	भूस्वामी/अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	7	8	9	10	
1	बनासकांठा	डीसा	वडली फार्म	83	निजी	व्यावसायिक	0.3065	श्री विनोदचंद्र जेठमल पटेल

[फा. सं. भाराराप्रा/तक/एनएचयूपी-II/एडीबी/2002/एलए-193]

प्रभाकर, उप-सचिव

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2006

**S.O. 2051(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1095 (E), dated the 14<sup>th</sup> July, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 14 on the stretch of land from km 372.600 (Deesa) to Km 447.000 (District Boundary, Patan) (Deesa-Radhanpur Section) in District Banaskantha, in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Divya Bhaskar" and "Sandesh" both dated the 25<sup>th</sup> July, 2006, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas one objection has been received and the same has been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 372.600 (Deesa) to km 447.000 (District Boundary Patan) (Deesa-Radhanpur Section) of the National Highway No -14 in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banaskantha	Deesa	Vadali Farm	83	Private	Commercial	0.3065	Shri Vinodchandra Jethalal Patel

[F. No. NHAI/Tech/NHUP-II/ADB/2002/LA-193]

PRABHAKAR, Dy. Secy.